

जीवन और श्रम ।

अँगरेजीके प्रसिद्ध लेखक डा० सेमुएल
स्माइल्सके ' लाइफ एण्ड लेबर ' का
अनुवाद ।

अनुवादक,
श्रीयुक्त बाबू रामचंद्र वर्मा ।

प्रकाशक,
'गाँधी' हिन्दीपुस्तक-भण्डार,
व्यवस्थापक-उदयलाल काशलीवाल ।

प्रथम संस्करण ।

• मूल्य डेढ़ रुपया,
कपड़ेकी जिल्दके आठ आने और ।

व्यासपर्व

दुर्गा भागवत

